

प्लान प्रोजेक्ट्स सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

***१३५. श्री राम सहाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लान प्रोजेक्ट्स सम्बन्धी समिति ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में सरकार का ध्यान किन बातों की ओर आकर्षित किया गया है ?

t [REPORT OF THE COMMITTEE ON PLAN PROJECTS

*135. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Committee on Plan Projects has submitted any report to Government; and

(b) if so, the points towards which the attention of Government has been drawn in that report?]

वित्त उयमंत्रि (श्री बी० आर० भगत):

(क) और (ख). सामुदायिक प्रयोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सिंचाई और बिजली सम्बन्धी दलों ने अपना कार्य पूरा कर के अपने प्रतिवेदन तैयार कर लिये हैं। चुनी हुई इमारतों की प्रायोजनाओं से सम्बन्ध रखने वाले दल को, जांच के लिये, छः किस्म के जो ढांचे सौंपे गये थे उन में से दो की जांच वह कर चुका है। प्लान प्रोजेक्ट्स सम्बन्धी समिति के निदेशानुसार दलों को अपने मुद्दाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना है। इसलिये इन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में इन प्राधिकारियों के साथ विचार-विनिमय किया जा रहा है। आशा है अन्तिम प्रतिवेदन जल्दी ही तैयार हो जायेंगे और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे।

t[THE DEPUTY MINISTER OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT): (a) and (b). The teams for Community Projects and National Extension Service and Irrigation and Power have completed their work and drawn up their reports. The team for Selected Buildings Projects has completed the examination of two out of the six types of structures allotted to them for study. In accordance with the directive of the Committee on Plan Projects, the teams were required to secure the agreements of Central Ministries and State Governments to their suggestions. The reports are therefore under discussion with these authorities. It is expected that the final reports will be ready very shortly and they will be placed on the Table of the House as soon as they are received.]

SHRI N. R. MALKANI: How many States have so far responded and sent their reports or reactions?

SHRI B. R. BHAGAT: The various Chief Ministers of the States are associated with the Committee and they are in continuous association with the working of the Committee. So we have the reaction of all the States.

भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल का दक्षिण-पूर्व एशिया का दौरा

***१३६. श्री राम सहाय :** क्या शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल पर, जिस ने १९५६ में दक्षिण-पूर्व एशिया का दौरा किया था, कितना व्यय हुआ;

(ख) इस शिष्टमंडल ने किन किन नगरों का दौरा किया ; और

(ग) क्या इस शिष्टमंडल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?